

प्रेषक,

विवेक यादव,
अपर सिविल जज (जू०डि०),
कक्ष सं०- 8, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय,
फर्रुखाबाद।

विषय:

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 8/ 2018/ 279 दो- 4-2018-45 (12) / 19 टी०सी० दिनांक 13.04.2018 के आलोक में विधिक में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारक प्रार्थी को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं०- 8, फर्रुखाबाद के पद पर कार्यरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश संख्या 8/ 2018/ 279/ दो- 4-2018-45 (12) / 19 टी०सी० दिनांक 13.04.2018 के अनुसार प्रार्थी को एल.एल.एम. की उपाधि प्राप्त होने के कारण 03 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि विधि में स्नातकोत्तर उपाधि (एल.एल.एम.) धारक होने के कारण प्रार्थी को माह दिसंबर 2019 से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी अद्यतन शासनादेश संख्या 8/ 2018/ 279/ दो- 4-2018-45 (12) / 19 टी०सी० दिनांक 13.04.2018 के आलोक में 03 अग्रिम वेतन वृद्धि माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 12.07.2021

भवदीय,

विवेक यादव
12/7/21

(विवेक यादव)

अपर सिविल जज (जू०डि०),
कक्ष सं०- 8, फर्रुखाबाद

आयातक जनपद न्यायाधीश
सं०-1560/J दिनांक- 12.07.2021

अप्रचारित

Rudra

१/८ अपर न्यायाधीश

कक्ष सं०- 8
12.07.21

प्रेषक,

रीपब्लिक विद्वेटी
अपर न्यून्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-1649(एस बी)/2013 नीलकान्त मणि त्रिपाठी व 29 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017, रिट याचिका संख्या-678(एस बी)/2014 जमश प्रताप सिंह-4 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08-05-2017 तथा रिट याचिका संख्या-1496 (एस बी)/2015 सजय ठाकर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 न्यायिक सेवा के एलएल0एम0 उपाधिधारक अधिकारियों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किये जाने का सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

प्रायः राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडूड आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-03-2002 के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा में नियमित अभ्याधीन को शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2009 तथा संशोधित शासन के पत्र संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 03-01-2013 द्वारा मा0 शेडूड आयोग की संस्तुति को दिनांक 21-03-2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में नियमित अभ्याधीन को 03 अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्रदान की गयी थीं।

2- इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-सी-19/2012 भरत कुमार शन्तिलाल ठाकर बनाम गुजरात राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01-04-2014 के क्रम में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15-11-2014 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के दृष्टिगत दिनांक 21-03-2002 के पूर्व नियमित एवं चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि (एलएल0एम0) धारित करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा एवं उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सीधी भती) के अधिकारियों को भी शासन के आदेश संख्या-2/2015/355/दो-4-2015-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 27-03-2015 द्वारा 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विषयगत तीनों रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 08-05-2017 एवं 03-05-2017 के प्रस्तर-60 में निम्न व्यवस्था दी गयी :-

60. Accordingly, letter dated 03.01.2012 is quashed and the Government Orders dated 13.05.2009 and 27.03.2015 require clarification/modification to the extent they deny the benefit of three advance increments to those judicial officers who have

- 1- यह शासनआदेश इलेक्ट्रॉनिकी जहाँ किया गया है, अतः उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनआदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shassanadshah.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

acquired/acquire higher qualification of LL.M. after joining the service, therefore, we direct that :-

- i. The benefit of three advance increments shall also be admissible to the petitioners as well as all other similarly situated judicial officers in the State of U.P.
- ii. The judicial officers who acquire the degree of LL.M. before joining the service shall be entitled to three additional increments from the date of joining the service or from the date of implementation of the Government Order, as the case may be, while those who have acquired/acquire the same after joining the service shall be entitled to these increments from the date of acquisition of the higher qualification of LL.M.
- iii. The additional increments shall continue to be drawn by the judicial officers on their further promotion and/or placement in higher pay scale, as the case may be.

The writ petitions are decided accordingly. No order as to costs.

4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 03-05-2017 में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार शासन द्वारा जारी किये गये अनुपालन आदेश संख्या-6/2018/149/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 03-04-2018 एवं तत्कम में जारी शुद्धि-पत्र संख्या-7/2018/149 ए/दो-4-2018-45(12)/91 टी0सी0, दिनांक 04-04-2018 को सम्बन्ध विचारोपरान्त मा0 न्यायालय के आदेश के अनुरूप न होने के कारण उसे एतद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03-05-2017 (जिसमें दिनांक 08-05-2017 को प्रदत्त दोनों आदेश समाहित हैं) के समादर में बिन्दुवार अनुपालन करते हुए श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आदेश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में आने के उपरान्त विधि में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं, उन्हें 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा।
 - (2) ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के पूर्व एलएल0एम0 की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से, जो भी लागू हो, अथवा ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में आने के उपरान्त एलएल0एम0 की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देय होंगी।
 - (3) उपर्युक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धियों का लाभ सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति/उच्च वेतनमान में जाने पर, जो भी स्थिति हो, मिलता रहेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे.आ. 2-206/दस-2018, दिनांक 13-04-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निगेत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।